

## प्रेस नोट दिनांक-27.03.2023

(1). आज दिनांक 27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। महोदया द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(2). आज दिनांक-27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 09 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 02/2014 धारा 147,148,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1. सियाराम उर्फ श्रीराम पुत्र रामसिंह 2. राजू पुत्र नथुनिया 3. नथुनिया पुत्र बेनी 4. रामसंवारे पुत्र पुत्र रामदेव निवासीगण किशोर का पुरवा मजरा सुरवल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना सरधुवा

## 2. आरक्षी रणविजय सिंह

(ii). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री रजोल नागर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 1562/2020 धारा 279,337,338 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राघवेन्द्र पटेल पुत्र शिवप्रकाश निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रजोल नागर चौकी प्रभारी शिवरामपुर

2. आरक्षी श्यामू

(iii). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य तथा उ0नि0 श्री विजय बहादुर थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 232/2020 धारा 147,148,323,504,506,452 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र पुत्र गुलाब 2. ऋषि पुत्र चन्द्रेश 3. विमलेश पुत्र रामबालक 4. इन्द्रेश पुत्र किशोरीलाल निवासीगण हन्ना विनैका थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ

2. उ0नि0 श्री विजय बहादुर

3. आरक्षी जितेन्द्र सिंह

4. आरक्षी रविन्द्र कुमार

5. मुख्य आरक्षी जुबैर अली

(5). आज दिनांक-27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में नोडल अधिकारी डायल 112/अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस कार्यालय राघव प्रेक्षागार में 18 दिवसीय फ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये । फ्रेशर प्रशिक्षण दिनांक-10.03.2023 से 27.03.2023 तक ट्रेनर एमडीएसएल श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं एमडीएसएल श्री वीरबहादुर द्वारा डायल 112 में नवनियुक्त हुए पुलिसकर्मियों को राघव प्रेक्षागार में दिया गया है । प्रशिक्षण में ईवेन्ट प्राप्त होते ही फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, एमडीटी हैंडलिंग, संवाद कौशल, मनोवैज्ञानिक तथ्य, विधिक जानकारी, तकनीकी जानकारी एवं आपात कालीन परिस्थिति से निपटने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी । प्रशिक्षण में 18 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे जिसमें 10 आरक्षी व 08 महिला आरक्षी उपस्थित रहे । महिला आरक्षियों की नियुक्ति जनपद की 02 महिला पीआरवी वाहनों में की जाएगी ।

इस दौरान प्रभारी यू0पी0 112 निरीक्षक श्री रामजीत यादव, प्रभारी 02 पहिया वाहन उ0नि0 श्री ममलेश्वर, एमडीएसएल श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं एमडीएसएल वीरबहादुर एवं अन्य पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनांक-27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा पुलिस कार्यालय में सोशल मीडिया सेल, परिवार परामर्श केन्द्र, जन शिकायत प्रकोष्ठ, रिट सेल, महिला सहायता प्रकोष्ठ शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदया द्वारा शाखाओं में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित पुलिसकर्मियों से उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। महोदया द्वारा अभिलेखों का रखरखाव एवं कार्यालय की साफ-सफाई का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी, स्टेनो पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल, श्रीमती रीता सिंह प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र, रिट सेल प्रभारी एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सँ0 77/23 धारा 302,506 भादवि0 थाना मऊ जनपद चित्रकूट से संबंधित वांछित अभियुक्त दुर्गादत्त त्रिपाठी पुत्र राज नारायण निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह
2. आरक्षी रामबालक यादव